




शुभकामना और भावना



रोज़ के काम




खाना




मज़े




सीखना



लोग



जगह



समय और मौसम



मदद



शुभकामनाएं



नमस्कार



आपसे मिलकर अच्छा लगा



आपका दिन कैसा था?



आप कैसे हैं?




अलविदा



आपके क्या हाल हैं?



नमस्ते



ताली दो



शुभ प्रभात



शुभ दिन



शुभ संध्या



शुभ रात्रि



भावना



निराश



खुश



उदास




गुस्सा



डर




हैरान



बोर



चिंता




थका हुआ



तनावग्रस्त




बीमार



दुःखी



उलझन



शर्मिंदा



चिढ़ा हुआ



गरम



ठंडा




बिनती



मुझे अधिक समय चाहिए



क्षमा कीजिये



मुझे माफ करें



कृपया थोड़ा धीरे जाइए



मुझे मदद की ज़रूरत हैं



मुझे समझ में नहीं आया



मेरे साथ बाँटे



कृपया यहाँ आइये



कृपया मुझे लेके जाईए



कृपया



धन्यवाद




आपका स्वागत हैं




कृपया दिजीए



कृपया फिर से बताईए



कृपया दिखाईए



मुझे एक ब्रेक चाहिए



मैंने खत्म कर दिया



सवाल



कब?



कहाँ पे?



क्यों?



क्या?